



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255089
CG-DL-E-02072024-255089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]
No. 334]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946
NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2024

सा.का.नि 357(अ).—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जीव जंतु कल्याण प्रभाग), भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (सचिव), भर्ती नियम, 2015, सा. का. नि. 770(अ) दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में सचिव के पद की भर्ती को शासित करने वाले नए भर्ती नियम तैयार करने का निर्णय लिया है और अंतिम नियम प्रकाशित करने से पहले तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए इसके साथ अब प्रकाशित किया जा रहा है।

उक्त नियमों के प्रारूप में किसी सुझाव या आपत्ति करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार के विचारार्थ अपने सुझाव या आपत्ति संयुक्त सचिव (जीव जंतु कल्याण), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कक्ष सं. 245, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 को भेज सकता है।

मौसोदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (सचिव), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
सचिव	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(ii) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-12 के वेतन मैट्रिक्स (78800-209200) में।
चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	
(5)	(6)	(7)	
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना।
(11)	(12)
<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -</p> <p>क (अ) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर लेवल-11 (67700-208700रुपये) में नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष; और</p> <p>(ब) प्रशासन में, सम्मेलन या प्रशिक्षण या संगोष्ठी आयोजित करने में अनुभव रखते हों, जीव-जंतु कल्याण या पशु उपचार, जीव जंतु कल्याण विधि इत्यादि का ज्ञान रखते हों,</p> <p>ख निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-</p> <p>अनिवार्य:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984(1984 का 52) की अनुसूची I या अनुसूची II में उल्लिखित और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत समतुल्य से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री या पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री; या प्राणी विज्ञान या जैव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वानिकी या वन्य जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिसिन या शल्य चिकित्सा या वायरस विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जैव-विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान या परजीवी विज्ञान या पशु चिकित्सा लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य या प्राणी विज्ञान या जैव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वानिकी या वन्य जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त,</p>	लागू नहीं।

<p>व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी</p>	
<p>भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>	
(13)	
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	

[फा.सं. वी-11/16/2021-प्रशा.-6]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2024.

G.S.R.357.(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act (59 of 1960); the Central Government has decided to frame new Recruitment Rules governing the recruitment of the post of Secretary in Animal Welfare Board of India in suppression of the Animal Welfare Board of India (Secretary) Recruitment Rules, 2015, published by the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Animal Welfare Division) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section(i) notified vide G.S.R. 770(E) dated 09th October, 2015, and now published herewith for comments by stakeholders within a period of thirty days before publishing the final rules.

Any person desiring to make any suggestion or objection in respect of the said draft Rules may forward the same for consideration of the Central Government, within the period specified above, to the Joint Secretary (Animal Welfare), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Room No. 245, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001.

Draft Rules

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Animal Welfare Board of India (Secretary) Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualification.** — No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Secretary.	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 per cent by Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.
(11)	(12)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration,- A (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Having experience in administration, organizing conferences or training or seminars, having knowledge in Animal Welfare or Animal treatment, Veterinary Care and Animal Welfare Laws etc.	Not applicable.

<p>B possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>Essential:-</p> <p>(i) Bachelor degree in Veterinary Science or Bachelor degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University or equivalent as mentioned in Schedule I or Schedule II of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) and registered with Veterinary council of India or State Veterinary Council; or Masters degree or equivalent Diploma in Zoology or Biological Sciences or environmental sciences or forestry or Wild Life Sciences.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Masters degree in Veterinary Science in the field of Medicine or Surgery or Virology or Bacteriology or Microbiology or Immunology or Parasitology or Veterinary Public Health from a recognized University or equivalent; or Masters degree or Diploma in Zoology or Biological Sciences or environmental sciences or forestry or Wild Life Sciences.</p> <p>(ii) Five year's working experience in the Central Government or State Government or Union Territories.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. V-11/16/2021-Admin_6]

DR. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.